



TDSL/CS/BSE/NP/02-2025-26

August 16, 2025

To,
Listing Compliance Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai- 400001

Scrip Code- 540955 (TDSL), ISIN: INE773Y01014

Subject: Submission of copies of Newspaper Advertisement for Un-Audited Financial Results (Standalone) for the quarter ended June 30, 2025

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of newspaper advertisement of Un-Audited Financial Results (Standalone) for the quarter ended June 30, 2025, published in the Newspaper of Financial Express (English), Lucknow edition dated 15/08/2025 and Jansatta (Hindi), Lucknow edition dated 15/08/2025. The same has been made available on company's website www.tastydairy.com.

Kindly take the same on record and display the same on the website of your exchange.

Thanks & Regards,

For TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

SHAMSHAD ALAM
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl.: As stated above

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED						
CIN : L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-4372849, E-mail : apoorvaleasing@gmail.com, Website: www.apoorvaleasingfinance.com						
Regd. Off: Block-34, House no. 247, Tilokpri, Delhi-110091, Corp. Off: C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301						
Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2025						
Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter Ended on 30.06.2025	Quarter Ended on 31.03.2025	Year Ended on 31.03.2025	Quarter Ended on 30.06.2025	Quarter Ended on 31.03.2025	Year Ended on 31.03.2025
	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited
Total Income from Operations (net)						
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	2.87	(47.98)	47.30	2.81	(46.43)	48.85
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2.87	(49.41)	45.87	2.81	(47.86)	47.42
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2.15	(36.88)	34.37	2.11	30.15	41.87
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.77	(47.07)	(2.30)	9.74	17.19	3.13
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
Basic:	0.01	-0.18	0.17	0.01	0.15	0.21
Diluted:	0.01	-0.18	0.17	0.01	0.15	0.21
Notes:						
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended on 30th June, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 30th June, 2025 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com .						
# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.						
For Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited						
Atul Singh Tyagi, Managing Director, DIN: 01335008						

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED
INFORMATION NOTICE
The below mentioned Borrowers & Co-Borrowers are informed to remove their movable assets from the mortgaged property (mentioned in the below table) which has been sold by AU Small Finance Bank Ltd. (A Scheduled Commercial Bank) through auction proceeding under SARFAESI Act, 2002, otherwise the movable assets would be transferred to any rented location at their own cost and they will also be liable for any damage caused during the shifting, if it is not removed within 15 days. For other queries contact: PRATEEK KHATRI : 8130079830 or at nearest branch.

Loan A/c No. & Name of the Borrower/Co-Borrower/ Mortgagee/Guarantor	Detail of Mortgaged Property
(A/c No.) L9001060100601402 DINESH KUMAR S/o MATA PRASAD (Borrower & Mortgagee), SMT. BHARTI W/o DINESH KUMAR (Co-Borrower), BRAJ MOHAN S/o MATA PRASAD (Co-Borrower)	KHASHRA NO.1123, PLOT NO.15, CHAMAN VIHAR COLONY, VILL.-LONI, PARGANA, DIST.-GAZIABAD, U.P. Admeasuring-50 SQ. YRD.
(A/c No.) L9001060138086301 M/S First India Services Through its Proprietor Kalak Mahar (Borrower), Janak Mahar S/O Ashok Mahar (Co-Borrower), Smt. Rekha Mahar W/O Kalak Mahar (Co-Borrower), Kalak Mahar S/O Janak Mahar (Co-Borrower)	Property Situated At Khasra No 83/1, Nihal Vihar Old Block -E, New Block Rz-D, Vill - Nangloi Jat, Delhi Admeasuring 50 Sayd
Date : 14-08-2025 Place : Delhi	Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED

Registered Office: No. 11, Rani Jhansi Road, (Motia Khan), M.M. Road New Delhi -110055
CIN: L74899DL1993PLC055697
Email : ekam.leasing1@gmail.com, info@ekamleasing.in
Website : www.ekamleasing.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2025

The Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended on June 30, 2025 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meeting held on August 14, 2025.

The full format of Financial Results are available on the website of Stock exchange at www.bseindia.com also on the Company's website i.e. www.ekamleasing.in. The same can be accessed by scanning the QR Code.

Please scan the below QR Code to view the full financial results:



On Behalf of the Board of Directors
EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED
Sd/-
Rakesh Jain
Chairman Cum Managing Director
DIN:00061737

Place-New Delhi
Date- 14th August, 2025



For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214

RAJDARSHAN INDUSTRIES LIMITED
CIN:L 14100RJ1980PLC002145
Address: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur - 313001, Web: www.rajdarshanindustrieslimited.com, Mail: info@rajdarshanindustrieslimited.com
Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30 June, 2025 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
	6/30/2025 Un-audited	3/31/2025 Audited	6/30/2024 Un-audited	3/31/2025 Audited	6/30/2025 Un-audited	3/31/2025 Audited	6/30/2024 Un-audited	3/31/2025 Audited
Total income	65.61	-9.84	157.78	209.93	65.61	-9.84	157.78	209.93
Net Profit for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	24.44	(34.95)	39.68	17.90	24.44	(34.95)	39.68	17.90
Net Profit for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items	24.44	(34.95)	39.68	17.90	24.44	(34.95)	39.68	17.90
Net Profit for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items	24.44	(29.00)	39.68	23.45	24.44	(29.00)	39.68	23.45
Share of Profit/Loss of associates and Joint Ventures accounted for using Equity method	-	-	-	-	(0.20)	0.43	(0.36)	0.04
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	97.68	(180.71)	137.77	47.73	97.48	(180.28)	137.41	47.77
Equity Share Capital	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1879.40				1879.40			
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)								
1. Basic:	0.79	-0.93	1.28	0.75	0.78	-0.92	1.27	0.76
2. Diluted:	0.79	-0.93	1.28	0.75	0.78	-0.92	1.27	0.76

NOTES: The standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30 June, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meetings held on August 14, 2025.
The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly and period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and on Company's Website (www.rajdarshanindustrieslimited.com)
Place: Udaipur
Date: 14-08-2023
For Rajdarshan Industries Ltd.
Sd/-
Kalp Shri Vaya (Company Secretary)

VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Unit 203 & 204, 2nd Floor, "A" Wing, Navbharat Estate, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400015, Maharashtra. CIN No.: U65922MH2005PLC272501

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagee (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Vastu Housing Finance Corporation Limited the same shall be referred herein after as Vastu Housing Finance Corporation Limited. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction.
It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website <https://sarfaesi.auctiontiger.net>

S N	Account No. and Name of borrower, co-borrower, Mortgagees	Date & Amount as per Demand Notice U/s 13(2) & Date of Physical Possession	Descriptions of the property/Properties	Reserve Price, Earnest Money Deposit. (In Rs.)	E-Auction Date and Time, EMD Submission Last Date, Inspection Date
1	HL0000000171298 Raju Basak (Borrower), Anita Basak (Co-Borrower)	Demand Notice Date 20-Aug-24 & Amt Rs.2637183 on 14-Aug-24 + Interest Cost etc. & 20-Jan-25	Property No. Rz-3a/322, Second Floor, Cell No.7 out of Khasra No. 322 and 323, Village Nasipur, Colony Known as West Sagapur New Delhi, National Capital Territory of Delhi, 110046, area measuring 50 sq.yds., out of total area measuring 100 sq.yds.	Rs.2200000/- Rs.220000/-	31-08-2025 Timings 11:00 AM to 4:00 PM. 29-08-2025 up to 5:00 PM., 22-08-2025

1. All interested participants / bidders are requested to visit the website <https://sarfaesi.auctiontiger.net>. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact M/S e-Procurement Technologies Pvt. Ltd. (Auctiontiger); Address : Head Office: B-705, Wall Street II, Opp. Orient Club, Near Gujrat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380 006 Gujrat (India). Contact Person : Mr. Ram Sharma Contact number: 8000023297/9265562818/9265562821/079-6813 6842/6869. email id: ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net
2. For further details on terms and conditions please visit <https://sarfaesi.auctiontiger.net> to take part in e-auction.
3. For more details about the property kindly contact to Authorized officer Raman Joshi Contact no. 8000023297
THIS IS ALSO A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES,2002
Date : 15.08.2025
Place : Nasirpur
Authorised officer
Vastu Housing Finance Corporation Ltd

TASTY DAIRY SPECIALTIES LIMITED
Regd. Office: D-3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, India, Pincode-209311
CIN: L15202UP1992PLC014593, Phone No.: 0512-4003999, Fax No.: 0512-2234244
Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025
(Rs. in Lacs)

Sr. No	Particulars	Quarter Ended			
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	Year Ended
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	220.00	204.40	142.09	647.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, exceptional item)	-200.79	-237.88	-265.50	-974.09
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (After Exceptional items)	-200.79	-237.88	-265.50	-974.09
4	Net Profit / (Loss) for the period (After tax and exceptional items)	-203.35	-251.62	-261.25	-993.14
5	Total Comprehensive income for the period comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	-199.50	-248.41	-263.23	-987.80
6	Equity Share Capital	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) and shown in the balance sheet of the previous year				
8	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continuing operations)				
	Basic	-1.00	-1.23	-1.28	-4.86
	Diluted	-1.00	-1.23	-1.28	-4.86
9	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for discontinuing operations)				
	Basic	-	-	-	-
	Diluted	-	-	-	-
10	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continuing and discontinuing operations)				
	Basic	-1.00	-1.23	-1.28	-4.86
	Diluted	-1.00	-1.23	-1.28	-4.86

Notes:

- The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 14, 2025 and statutory auditors have carried out a review of these financial results.
- The figure for the quarters ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed and not subject to audit.

Place: Kanpur
Dated: 14-08-2025

For Tasty Dairy Specialties Ltd.
Sd/-
(Atul Mehra)
Chairman & Director
DIN: 00811607

Dear Members,
Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with circulars issued earlier on the subject ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with the circulars issued earlier on the subject ("SEBI Circulars"), have permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/ OAVM ill September 30, 2025, without mandating the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the 40th AGM of the Company will be held on Tuesday, September 16, 2025, at 4:00 P.M. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). It shall be deemed that the venue for 40th AGM shall be the Registered Office of the Company i.e. 403 Prabhat Kiran, 17, Rajendra Place, Delhi- 110008.

In terms of the above-said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-2025, will be sent ONLY through electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant ("DP") Skyline Financial Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). The same will also be available on the Company's website www.quintdigital.in and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. The Notice of the AGM will also be disseminated on the website of the CDSL i.e. www.evotingindia.com. A letter providing the web-link for accessing the Annual Report for the FY 2024-2025, including the exact path, will be sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company/ DP/ RTA.

We urge all the members who have not registered their email addresses with the Company/DPs/ RTA to do so forthwith in order to receive all communications promptly without any disruption. Updated email addresses in the records will help us to communicate with you effectively.

Those members who have not yet registered their email address are requested to get their email addresses registered by following the procedure given below:

- A. Members holding shares in physical forms are requested to register/ update their email addresses by sending scanned copy of the following details to the Company's RTA, Skyline Financial Services Private Limited, having office at A-506, Dattani Plaza, Andheri-Kurla Road, Safed Pool, Andheri East, Mumbai-400072 at pravin.com@skylinert.com:
- A signed request letter in form ISR-1 and provide other details like your Name, Email-id, Folio Number, Number of shares held, Certificate Number, Distinctive Number, Copy of Share Certificate and Complete Address; and
 - Self-attested scanned copy of PAN linked with Aadhaar Card and an identity proof (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card).
- B. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with their Depository Participants where they maintain their demat account.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations, Secretarial Standard- 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote on the resolutions set forth in the Notice of the 40th AGM ("Notice") by electronic means through both remote e-voting and e-voting at the AGM. The instructions for joining the AGM through VC/ OAVM and the manner of participation in the remote e-voting and voting at the AGM will be provided in the Notice. The members participating through VC/ OAVM facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

This notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

For Quint Digital Limited

Sd/-
Tarun Belwal
Company Secretary & Compliance officer
M. No. A39190
Date: 14.08.2025
Place: Noida



लक्ष्मी इण्डिया फाईनॅस लिमिटेड

(पूर्व में लक्ष्मी इण्डिया फाईनॅस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

CIN: U65929RJ1996PLC073074 पंजीकृत कार्यालय- 2, डीएफएल, गोपीनाथ मार्ग, एफआई रोड, जयपुर-302001, ई-मेल: info@lffc.in, वेबसाइट: www.lffc.co.in, फोन: 0141-4031166, 4033635

30 जून को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का विवरण

संबंधी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 को विनियम 33 और 52 (4) के साथ पढ़ा जाए (राशि लाख में, इंडीएस का छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक वर्ष	
		30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025	अंकेक्षित
1	परिचालन से कुल आय	7,008.07	5,125.49	24,803.77	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण मदों से पहले)	1,276.50	869.82	4,735.51	
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	1,276.50	869.82	4,735.51	
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	977.50	662.69	3,600.44	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (द्वारा अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) शामिल है, और अन्य व्यापक आय (कर के बाद), इक्विटी शेयर पूंजी	965.22	661.73	3,591.01	
6	इक्विटी शेयर पूंजी	2,090.72	1,986.28	2,090.72	
7	अवधि के लिए कुल आय (अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है)	24,759.33	18,848.27	23,696.42	
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	10,989.21	9,109.36	10,989.21	
9	शुद्ध संपत्ति	26,814.92	20,791.43	25,746.23	
10	शुद्ध संपत्ति	110,835.39	90,599.79	113,706.31	
11	वकाया मोचनीय धरिता शेयर	राश्व	राश्व	राश्व	
12	वकाया इक्विटी अनुपात	4.13	4.36	4.42	
13	प्रति शेयर आय (निरंतर और बंद परिचालनों के लिए)*				
1	मूल:	2.34	1.67	8.79	
2	वर्तक:	2.34	1.67	8.79	
14	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
15	वकाया मोचनीय धरिता निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
16	वकाया सेवा कवरज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
17	वकाया सेवा कवरज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

* तिमाही अवधि वर्ष के लिए वार्षिकीकृत नहीं

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुमोदन की गई है और उससे बाद 13 अगस्त, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया है।
- उपरोक्त संबंधी (सूचीबद्धता या अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 52 और 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल विवादित समाप्त वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही समाप्त वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(ओं) और सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइटों (https://www.bseindia.com, https://www.nseindia.com and https://www.lffc.co.in), पर उपलब्ध है। निम्न दिए गए सूचकांक को स्कैन करके इसे देखा जा सकता है।
- संबंधी (सूचीबद्धता या अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) में निर्दिष्ट अन्य पंक्ति मदों के लिए, प्राथमिक प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड) को किए गए हैं और उच्च गुणवत्ता (https://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com) पर देखा जा सकता है।
- कंपनी ने समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पड़ित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानक-34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में निर्धारित मान्यता और माप रिश्ताओं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा रिश्ताओं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिचय, दिशानिर्देशों और निर्देशों तथा संशोधित संबंधी (सूचीबद्धता या अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 33 और 52 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप के अनुपालन में अलेक्सापरीक्षित वित्तीय परिणाम (विवरण) तैयार किए हैं।



लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से
(पूर्व में लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ताक्षरकर्ता/-
दीपक वैद
दिनांक: 13 अगस्त, 2025
स्थान: जयपुर
(प्रबंध निदेशक) डीआईएन: 03373264

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



वास्तु हाउसिंग फाइनॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूनिट नं.- 203 व 204, द्वितीय तल, "ए" विंग, नवमार्ग एस्टेट, जकारिया बंडर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015, महाराष्ट्र, सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

अचल संपत्तियों के विवरणों का विवरण

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पड़ित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों के विवरण ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जिन्हें आगे वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक हैं, जिनका मौलिक कच्चा वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, सुरक्षित आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से "जहां है, जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।
एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

क्र. सं.	खाता सं. एवं उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ताओं के नाम	बार 13(2) के अंतर्गत निर्गत संपत्ति के अनुसार विधि एवं राशि तथा मौलिक अधिकारण की विधि	संपत्ति / संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (₹. में)	ई-नीलामी विधि एवं समय, घटाव जमा करने की अवधि विधि, निरूपण विधि
1.	HL0000000171298 राजू, बरसाक (उधारकर्ता), अनीता बरसाक (सह-उधारकर्ता)	मांग सूचना विधि 20-अप्रैल-2024 तथा राशि रु. 2637183/- दिनांक 14-अप्रैल-2024 के अनुसार + बाजार लागत और/तथा 20-जनवरी-2025	संपत्ति संख्या आरजेड- 39/322, द्वितीय तल, खारवा संख्या 322 और 323 में से गली नं. 7, ग्राम नसीरपुर कॉलोनी जिसे पश्चिम सागरपुर के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110046 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, जो कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज में से है।	₹.2200000/- ₹.2200000/-	31-08-2025 समय मध्य 11:00 से अपर 4:00 बजे तक, 29-08-2025 को सायं 5:00 बजे तक, 22-08-2025

- सभी इच्छुक प्रतिभागियों / बोलीदाताओं से विनंती है कि वे वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर जाएं। ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संचालित बोलीदातागण मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ऑपरेशनल) से संपर्क कर सकते हैं; पता : प्रधान कार्यालय : बी-705, वॉल स्ट्रीट II, ओरिएंट ब्लक के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, पुलिस ब्रिज, अहमदाबाद- 380 006 गुजरात (भारत)। संपर्क हेतु व्यक्ति : श्री राम शर्मा, संपर्क नंबर : 8000023297 / 9265562818 / 9265562821 / 079-6813 6842 / 6869 ईमेल आईडी : rampasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net
- नियम और शर्तों के बारे में अधिक विवरणों के लिए कृपया और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर जाएं।
- संपत्ति के बारे में अधिक विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री रमन जोशी से संपर्क करें, संपर्क नंबर 8000023297

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत एक 15 दिवसीय संवैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक : 15-08-2025
स्थान : नसीरपुर

प्राधिकृत अधिकारी

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अपूरवा लिजिंग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

CIN : L74899DL1983PLC016713; दूरभाष: 0120-4372849 ई-मेल : apoorvaleasing@gmail.com; वेबसाइट: www.apoorvaleasingfinance.com
पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक -34, हाऊस नं 247, त्रिलोकपुरी दिल्ली-110091, कारपोरेट कार्यालय:सी-1/9, सेक्टर-31, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के संगठित एवं एकीकृत वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	एकीकृत			संगठित		
	30.06.2025 को समाप्त तिमाही	31.03.2025 को समाप्त तिमाही	31.03.2025 का समाप्त वार्षिक	30.06.2025 को समाप्त तिमाही	31.03.2025 को समाप्त तिमाही	31.03.2025 का समाप्त वार्षिक
	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालन से कुल आय (नेट)						
अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	2.87	(47.98)	47.30	2.81	(46.43)	48.85
कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	2.87	(49.41)	45.87	2.81	(47.86)	47.42
कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद	2.15	(36.88)	34.37	2.11	30.15	41.87
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	9.77	(47.07)	(2.30)	9.74	17.19	3.13
शुद्धा इक्विटी शेयर केपीटल [सममूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49
रिजर्व (स्केल्यूडेशन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पछले वर्ष के तुलन पत्र में दिखाया गया	-	-	-	-	-	-
प्रति शेयर आय [सममूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर] (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)-						
मूल:	0.01	-0.18	0.17	0.01	0.15	0.21
तलक:	0.01	-0.18	0.17	0.01	0.15	0.21

टिप्पणी:

उपरोक्त 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही एवं त्रैमासिक के वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप का सार संबंधी (सूचीबद्धता या अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किये गये। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के एकीकृत एवं संगठित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.in एवं कंपनी की वेबसाइट www.apoorvaleasingfinance.com पर उपलब्ध है।
- विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों को आईएनडी-एस नियमों/एस नियमों, जो भी लागू हों, के अनुसार लाभ एवं हानि कथन में समायोजित किया गये हैं।

कृते अपूरवा लिजिंग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

अतुल सिंह त्यागी प्रबंध निदेशक

DIN: 01335008



JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN - L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana

Phone : 01732-251810/11/14 email: investor.relations@jaispring.com, Website : www.jaispring.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		Unaudited 30.06.2025	Audited 31.03.2025	Unaudited 30.06.2024	Audited 31.03.2025	
1	Total Income from operations	57,332.60	63,771.35	58,713.65	227,013.73	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	6,449.72	7,226.24	6,459.16	25,575.17	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	6,449.72	7,226.24	6,459.16	25,575.17	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	4,574.50	5,031.90	4,638.46	18,031.96	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,583.05	5,153.33	4,626.90	18,032.66	
6	Equity Share Capital	3,988.41	3,988.41	3,988.02	3,988.41	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				95,328.11	
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) (In Rs.)					
9	Basic:	1.15	1.27	1.16	4.52	
10	Diluted:	1.14	1.26	1.16	4.51	

Notes:

- The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as "the Group") for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 14, 2025.
- Information of standalone audited financial results in terms of the Listing Regulations is as under:

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		Unaudited 30.06.2025	Audited 31.03.2025	Unaudited 30.06.2024	Audited 31.03.2025	
1	Revenue from operations	56,028.02	62,019.67	54,232.10	221,185.27	
2	Profit before tax	7,167.78	8,248.52	6,745.76	28,433.84	
3	Total Comprehensive income for the period	5,330.76	6,189.81	4,990.51	21,082.30	

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com.



For Jamna Auto Industries Ltd

P. S. Jauhar

Managing Director & CEO

DIN 00744518

Date : August 14, 2025
Place : Dubai

सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L26943HP1992PLC016791

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 2, फेज III, संसाधन देवर, कागड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212.

कॉर्पोरेट कार्यालय: एफ-32/3, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-III, नई दिल्ली-110020

वेबसाइट: www.surajindustries.org, Email ID: secretarial@surajindustries.org

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेक्सापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(लाख में रुपये)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
		अलेखापरीकित	लेखा-परीकित	अलेखापरीकित	लेखा-परीकित	अलेखापरीकित	लेखा-परीकित	अलेखापरीकित	लेखा-परीकित
1	परिचालन से कुल आय(शुद्ध)	1,019.76	816.23	1,381.05	3218.19	1444.81	725.68	1,381.47	3128.95
2	सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, अपवादालक और/या असाधारण आइटम)	(42.16)	0.18	28.95	(94.84)	(193.17)	(99.74)	24.62	(209.45)
3	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालक और/या असाधारण आइटम के बाद.)	(42.16)	0.18	28.95	(94.84)	(193.17)	(99.74)	24.62	(209.45)
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	(31.68)	(1.83)	22.34	(72.94)	(127.20)	(129.22)	65.12	401.93
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(31.68)	(1.00)	22.34	(72.11)	(127.20)	(128.39)	65.12	402.76
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अभिवृत्त मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	1,852.52	1,583.28	1,284.59	1,583.28	1,852.52	1,583.28	1,284.59	1,583.28
7	रिजर्व (पूर्णन्यायान रिजर्व को छोड़कर) —अन्य इक्विटी —नैस-निर्णयक ब्याज	0	0	0	4663.04	0	0	0	5706.55
									2722.34
8	प्रति शेयर आय *(अभिवृत्त मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) पहले और बाद में असाधारण आइटम								
	वैशेषिक:	(0.19)	(0.01)	0.17	(0.49)	(0.74)	(0.82)	0.51	2.72*
	ररलीफुव:	(0.19)	(0.01)	0.17	(0.49)	(0.74)	(0.82)	0.51	2.72*
	(*) तिमाही के लिए वार्षिकीकृत नही*								